



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 26 पटना, बुधवार, 7 आषाढ़ 1945 (श10)
28 जून 2023 (ई0)

विषय-सूची		पृष्ठ
भाग-1— नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-6	भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---	भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---	भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---	भाग-9—विज्ञापन
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---	भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---	भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।
भाग-4—बिहार अधिनियम	---	पूरक
		पूरक-क

7-8
9-11

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

अधिसूचना

16 जून 2023

सं० 1/स्था०1-05/2023-401—श्रीमती सीमा त्रिपाठी, भा०प्र०से०, विशेष सचिव-सह-निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना वर्तमान में उपार्जित अवकाश में है।

2. श्रीमती त्रिपाठी के अवकाश अवधि तक के लिए निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय का प्रभार कार्यहित में अपने कार्यों के अतिरिक्त श्री दीपक आनन्द, भा०प्र०से०, अपर सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग को सौंपा जाता है।

3. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शिवनन्दन चौधरी, अपर सचिव।

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं

31 मई 2023

सं० 6/गो०-34-02/2019-1769—वाणिज्य-कर विभाग के निम्नलिखित पदाधिकारी को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-5 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक प्रतिनियुक्त किया जाता है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम/पदनाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	अतिरिक्त प्रभार हेतु प्रतिनियुक्ति का कार्यालय
1	2	3	4	5
1	श्रीमती विजयालक्ष्मी प्रसाद, राज्य-कर अपर आयुक्त, (अपने वेतनमान में)	पटना	मुख्यालय, बिहार, पटना। राज्य-कर अपर आयुक्त, प्रशासन, तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर का अतिरिक्त प्रभार।	पूर्व में आबंटित कार्य के अतिरिक्त राज्य-कर अपर आयुक्त, प्रशासन, सारण प्रमंडल, छपरा का अतिरिक्त प्रभार।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मो० मोईनुद्दीन, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-संयुक्त सचिव।

12 जून 2023

सं० 6/नि०प्रति०नियु०-01-01/2020-1942—विभागीय अधिसूचना संख्या-950, दिनांक-04.06.2020 द्वारा 63वीं बैच के 115 पदाधिकारियों की चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण औपबंधिक रूप से नियुक्ति की गयी। उक्त नवनि्युक्त पदाधिकारियों में से निम्नांकित 18 पदाधिकारियों का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है, जो अनुकूल है :-

सूची-I

क्र०स०	पदाधिकारी का नाम	संयुक्त मेधा क्रमांक	गृह जिला	जन्म तिथि	वर्तमान पदस्थापन
1	शिल्पी कुमारी	48	पटना	13.03.1993	दानापुर अंचल
2	रश्मि कुमारी	55	नालन्दा	21.12.1990	पटना दक्षिणी अंचल
3	संदीप कुमार	57	रोहतास	15.12.1993	गया अंचल

4	कमलशील	58	नालन्दा	05.02.1988	सासाराम अंचल
5	आशीष कुमार	71	लखीसराय	12.02.1992	भागलपुर अंचल
6	प्रांजल सिंह	81	शाहजहाँपुर (उत्तर प्रदेश)	05.01.1994	औरंगाबाद अंचल
7	नूपुर सिन्हा	97	पटना	02.04.1989	पटना उत्तरी अंचल
8	रवीश कुमार	125	मुंगेर	15.10.1993	बिहारशरीफ अंचल
9	खुशबू सिंह	131	बक्सर	18.07.1989	पटना पश्चिमी अंचल
10	नवनीत कुमार	136	सारण	23.09.1988	सिवान अंचल
11	हरेराम	141	राँची (झारखण्ड)	31.07.1990	अंकेक्षण, केन्द्रीय प्रमण्डल, पटना
12	पवन कुमार साह	145	गोपालगंज	05.01.1985	सारण अंचल
13	रवि रंजन कुमार	155	शेखपुरा	27.04.1995	लखीसराय अंचल
14	सौम्या	159	शेखपुरा	25.03.1991	पटना मध्य अंचल
15	दुर्गेश नन्दन	162	बेगूसराय	31.03.1984	तेघड़ा अंचल
16	कुमार दिवाकर	213	मधेपुरा	09.09.1984	सुपौल अंचल
17	स्मृति संजयम	223	जमुई	04.06.1992	पटना सिटी पश्चिमी अंचल
18	विरंजनी रानी	266	नालन्दा	20.06.1994	गया अंचल

अतः उपर्युक्त 18 नवनियुक्त पदाधिकारियों की विभागीय अधिसूचना संख्या-950, दिनांक-04.06.2020 के द्वारा की गयी औपबंधिक नियुक्ति को नियमित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मो० मोईनुद्दीन, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-
सह-संयुक्त सचिव।

13 जून 2023

सं० 6/वि०पत्रा०-24-21/2023- 1956/वा०कर-श्रीमती दीपिका कुमारी, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), भागलपुर अंचल, भागलपुर को उनसे प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर उनके पूर्व के विभाग प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड, राँची के कार्यालय में डिविजनल अकाउन्टेन्ट के पद पर पुनः वापस जाने हेतु अधिसूचना निर्गमन की तिथि से बिहार वित्त सेवा से विरमित किया जाता है।

2. विरमन के पश्चात् श्रीमती दीपिका कुमारी का बिहार वित्त सेवा में वापस लौटने का कोई दावा स्वीकार योग्य नहीं होगा।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मो० मोईनुद्दीन, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-
सह-संयुक्त सचिव।

परिवहन विभाग

अधिसूचनाएं

21 जून 2023

सं० 02/शमन-03/2016, परि०-4763-अपराध एवं यातायात नियंत्रण हेतु पटना जिला में यातायात बल के अन्तर्गत पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक एवं उनसे वरीय पुलिस पदाधिकारियों को विभागीय अधिसूचना संख्या-2889, दिनांक-28.04.2023 द्वारा दिनांक-23.04.2023 की तिथि से दिनांक-22.10.2023 तक के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित-मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-177, 178, 179, 180, 181, 182(1), 183(1), 184, 186, 189, 194B, 194C, 194D, 194E, 194F एवं धारा-201 के तहत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के लिए शमन की शक्ति प्रदान की गयी थी।

अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात), बिहार, पटना के पत्रांक-311, दिनांक-17.05.2023 के माध्यम से प्राप्त अनुरोध के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत राज्य के जिलों में यातायात बल के अन्तर्गत पदस्थापित सभी पुलिस अवर निरीक्षक एवं उनसे वरीय पुलिस पदाधिकारियों को मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित-मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-177, 178, 179, 180, 181, 182(1), 183(1), 184, 186, 189, 194A, 194B, 194C, 194D, 194E, 194F, 196 एवं धारा-201 के तहत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के लिए शमन की शक्ति प्रदान की जाती है।

2. इस संबंध में पूर्व में निर्गत परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या-2889, दिनांक-28.04.2023 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

3. यह अधिसूचना इसके निर्गमन की तिथि से अगले आदेश तक के लिए प्रभावी होगी।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

(ह0) अस्पष्ट, सचिव।

21 जून 2023

सं0 02/शमन-03/2016, परि0-4764—अपराध एवं यातायात नियंत्रण हेतु जिलों में पदस्थापित ओपी0 प्रभारी, थानाध्यक्ष एवं उनसे वरीय पुलिस पदाधिकारियों को विभागीय अधिसूचना संख्या-2886, दिनांक-28.04.2023 द्वारा दिनांक-27.04.2023 से दिनांक-26.04.2024 तक की अवधि के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988—सहपठित—मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-177, 178, 179, 180, 181, 182(1), 183(1), 184, 186, 189, 190(2), 194B, 194C, 194D, 194E, 194F एवं धारा-201 के तहत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के लिए शमन की शक्ति प्रदान की गयी थी।

अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात), बिहार, पटना के पत्रांक-311, दिनांक-17.05.2023 के माध्यम से प्राप्त अनुरोध के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत बिहार राज्य के सभी जिलों में पदस्थापित सभी पुलिस अवर निरीक्षक, ओपी0 प्रभारी, थानाध्यक्ष एवं उनसे वरीय पुलिस पदाधिकारियों को मोटरयान अधिनियम, 1988—सहपठित—मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-177, 178, 179, 180, 181, 182(1), 183(1), 184, 186, 189, 190(2), 194A, 194B, 194C, 194D, 194E, 194F, 196 एवं धारा-201 के तहत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के लिए शमन की शक्ति प्रदान की जाती है।

2. इस संबंध में निर्गत परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या-2886, दिनांक-28.04.2023 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

3. यह अधिसूचना इसके निर्गमन की तिथि से अगले आदेश तक के लिए प्रभावी होगी।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

(ह0) अस्पष्ट, सचिव।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचनाएं

13 जून 2023

सं0 भांस्थां(02)-16/2007-2130/पंव०—श्री मिथिलेश कुमार, भांव०से०, (BH:1980) सम्प्रति सेवानिवृत्त को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम-3 (1) नोट-3 में निहित प्रावधान के आलोक में दिनांक-07.08.2012 के प्रभाव से HAG वेतनमान (रूपये 67000-79000 @ 3% Increment) में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कोटि के अकार्यात्मक वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सं0 भांस्थां(02)-16/2007-2131/पंव०—श्री एस.के. सिंह, भांव०से०, (BH:1984) सम्प्रति सेवानिवृत्त को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम-3 (1) नोट-3 में निहित प्रावधान के आलोक में दिनांक-19.07.2007 से प्रदत्त मुख्य वन संरक्षक कोटि में नियमित प्रोन्नति की तिथि से वेतनमान पी.बी.-4 (रूपये 37400-67000, ग्रेड पे रूपये 10000/-) में मुख्य वन संरक्षक कोटि के अकार्यात्मक वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सं0 भांस्थां(02)-16/2007-2132/पंव०—श्री बी.सी. नायक, भांव०से०, (BH:1984) सम्प्रति सेवानिवृत्त को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम-3 (1) नोट-3 में निहित प्रावधान के आलोक में दिनांक-26.10.2006 के प्रभाव से वेतनमान पी.बी.-4 (रूपये 37400-67000, ग्रेड पे रूपये 10000/-) में मुख्य वन संरक्षक कोटि के अकार्यात्मक वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सं0 भांस्थां(02)-16/2007-2133/पंव०—श्री उमा शंकर झा, भांव०से०, (BH:1985) सम्प्रति सेवानिवृत्त को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम-3 (1) नोट-3 में निहित प्रावधान के आलोक में दिनांक-15.02.2007 के प्रभाव से वेतनमान पी.बी.-4 (रूपये 37400-67000, ग्रेड पे रूपये 10000/-) में मुख्य वन संरक्षक कोटि के अकार्यात्मक वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सं0 भांस्थां(02)-16/2007-2134/पंव०—श्री बी.एल. चौधरी, भांव०से०, (BH:1985) सम्प्रति सेवानिवृत्त को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम-3 (1) नोट-3 में निहित प्रावधान के आलोक में दिनांक-15.02.2007 के प्रभाव से वेतनमान पी.बी.-4 (रूपये 37400-67000, ग्रेड पे रूपये 10000/-) में मुख्य वन संरक्षक कोटि के अकार्यात्मक वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सं0 भांस्थां(02)-16/2007-2135/पंव०—श्री भारत ज्योति, भांव०से०, (BH:1986) निदेशक, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम-3 (1) नोट-3 में निहित प्रावधान के आलोक में दिनांक-19.11.2007 के प्रभाव से वेतनमान पी.बी.-4 (रूपये 37400-67000, ग्रेड पे रूपये 10000/-) में मुख्य वन संरक्षक कोटि के अकार्यात्मक वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सं० भा०स्था०(02)-16 / 2007-2147 / प०व०-—श्री एस.एन. पाण्डेय, भा०व०से०, (BH:1995) सम्प्रति सेवानिवृत्त को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम-3 (1) नोट-3 में निहित प्रावधान के आलोक में दिनांक-01.04.2015 के प्रभाव से वेतनमान पी.बी.-4 (रुपये 37400-67000, ग्रेड पे रुपये 10000/-) में मुख्य वन संरक्षक कोटि के अकार्यात्मक वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सं० भा०स्था०(02)—16/2007—2148/प०व०—श्री आर.बी. सिंह, भा०व०से०, (BH:1995) सम्प्रति सेवानिवृत्त को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम-3 (1) नोट-3 में निहित प्रावधान के आलोक में दिनांक-01.04.2015 के प्रभाव से वेतनमान पी.बी.-4 (रूपये 37400-67000, ग्रेड पे रूपये 10000/-) में मुख्य वन संरक्षक कोटि के अकार्यात्मक वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
पूनम कुमारी, उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 15—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण
सूचनाएं इत्यादि ।

सूचना

No. 694—I, Md. Kamran Sallahuddin S/o.-Md. Sallahuddin P.S.-Mufassil, P.O.- Buniyadganj, Dist.- Gaya (Bihar) do hereby solemnly Affirm and declare that my name is written in my old passport No.- X908657 as Mohammad Kamran Salahuddin which is wrong. The correct name is Md. Kamran Sallahuddin S/o.-Md. Sallahudin. Affidavit No.- 47046 Dated 23.11.2022.

Md. Kamran Sallahuddin.

No. 734—I Preeti Kumari W/o Vinay Kumar Goenka, R/o Goenka Gali, Lal Bazar, Opposite Asha Market, Bettiah, West Champaran (Bihar) 845438 declare vide affidavit no. -364 dated 03-06-2023 that in my daughter's (Nandini) Xth Certificate bearing roll no.-22256233 year (2019-2020) & XIIth Certificate bearing roll no.-14651833 year (2021-2022) my name has been wrongly mentioned as Preeti Goenka, hence I shall be known as **Preeti Kumari** for all purposes.

Preeti Kumari.

No. 743—I, Kumari Reeta Yadav, W/o Anil Kumar Singh R/o Bahpura, P.O.- Darwan P.S.- Ramgarh, Distt. kaimur Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per affidavit No 1923/19-05-23 that my name is written in my son's Prince Kumar class Xth CBSE all educational documents as Kumar Reeta Yadav which is wrong my correct name as per Aadhar No-293301538623 is Kumari Reeta Yadav and from now I will be known as Kumari Reeta Yadav for all future purposes.

Kumari Reeta Yadav.

No. 744—I, MANISHA D/o Shri Manoj Diwakar, R/o Vill.- Anaila, P.O.- Maharama, P.S.- Roh, Dist. -Nawada, Bihar, PIN-805107 affirm by affidavit no. 1475 dated 11.05.2023 that my name Manisha will be know and identified as Manisha Diwakar for all purposes.

MANISHA.

No. 745—I, YOGENDRA Singh S/o Late Yugeshwar Singh R/o Village and PO-Bara, PS-Nabinagar, Dist-Aurangabad (Bihar) do hereby solemnly affirm and declare vide affidavit no. 14066 dated 26.11.22 that in my son Harsh Bhardwaj Secondary School Examination Certificate my name is Wrongly mentioned Yogendra Kumar, Correct name is Yogendra Singh.

YOGENDRA Singh.

सं० 746—मैं सुबोध कुमार वल्द स्व० राजनाथ सिंह सा० मुहल्ला, राजेन्द्र नगर, रोड नं०-5, थाना कदमकुआँ, पटना-16 मैं शपथ पत्र संख्या 627 दिनांक-19.04.2023 के माध्यम से घोषणा करता हूँ कि मेरा नाम सुबोध कुमार उर्फ विनोद कुमार सिंह के नाम से जाना पहचाना जाऊँगा।

सुबोध कुमार।

सं० 747—मैं बिभा सिन्हा पत्नी मनीष आलोक, निवास-कदमकुआँ, नाला रोड मोख्तार टोली पटना 800003 शपथ पत्र संख्या 55 ता० 06/06/23 द्वारा यह घोषणा करती हूँ कि हर्षित आलोक मेरा पुत्र है उसकी 10वीं पास सर्टिफिकेट में मेरा नाम गलती से बिभा अंकित हो गया है मेरा सही नाम बिभा सिन्हा है।

बिभा सिन्हा।

सं० 748—मैं, शुभम सुन्दरम (SHUBHAM SUNDRAM), पिता-उदय शंकर प्रसाद, पता-मकान सं०-114/172, नव ज्योति निवास, मुसल्लहपुर हाट, पो०-महेन्द्र, थाना-कदमकुआँ, पटना-800006 बिहार शपथ पत्र सं०-2840/06.04.23 द्वारा सूचित करता हूँ कि मेरे सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र में मेरा नाम शुभम सुन्दरम (SHUBHAM SUNDRAM) अंकित है। भविष्य में आगे सभी कार्य हेतु शुभम सुन्दरम (SHUBHAM SUNDRAM) के जगह शुभम शंकर (SHUBHAM SHANKAR) के नाम से जाना व पहचाना जाऊँगा।

शुभम सुन्दरम (SHUBHAM SUNDRAM)।

No. 757—This is to inform that Ratna Lall, W/O Dr. Kamal Kishore Singh, R/O Nageshwar Colony, Kavi Raman path, Boring Road has changed her name to Ratna Singh vide affidavit no. 875 dated 20.03.23 in the court of Executive Magistrate, Sadar, Patna.

Ratna Lall.

सं० 758—मैं आयुष्मान पिता-श्री अजय कुमार सिंह, निवासी-अतरदह (गुप्ता कॉलनी) कच्ची-पक्की रोड, पोस्ट-रमना, थाना-सदर, जिला-मुजफ्फरपुर, शपथ पत्र संख्या 712 दिनांक 25.05.2023 के द्वारा घोषणा करता हूँ कि अब मैं सभी कार्यों के लिए आयुष्मान वत्स के नाम से जाना व पहचाना जाऊँगा।

आयुष्मान।

No. 758—I, AAYUSHMAAN S/o Sri Ajay Kumar Singh R/o Atardah (Gupta Colony), Kachchi-Pakki Road, PO-Ramna. PS-Sadar, Distt. Muzaffarpur that declare Vide Affidavit No. 712 Dated 25.05.2023 nowday onward I shall be known as Aayushmaan Vatsa for all purposes.

AAYUSHMAAN.

No. 768—I, Babita Sharma W/o Manoj kumar R/o Vill+post kamalpura P.S Paroo Distt-Muzaffarpur Bihar 843101 do hereby solemnly affirm and declare as per affidavit No. 3001 dated 30.05.2023 that My Name is Mentioned is my Aadhar No 923410983800 and Pan (FVDPS5049Q) as Babita sharma which is wrong As per all education documents my correct Name is Babita kumari and from now I will be known as Babita kumari for all future purposes.

Babita Sharma.

No. 770—I Dr. Purushendra Vikram Singh S/o Late Prafulla Ranjan Singh, R/o 27, Mangalam Enclave, Baily Road, P.O-Danapur Cantt., P.S-Danapur, Patna, Bihar do hereby Solemnly Affirm and declare as per Affidavit No. 2215 Dated 22.06.23 that my minor son's name is recorded in his school as Armaan Rajvansh Which is Not correct. That Necessity to Change his surname Rajvansh to Rana. Now He Will Be Known as Armaan Rana for all future purposes.

Dr. Purushendra Vikram Singh.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 15—571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>

बिहार गजट का पूरक(अ0) प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं० 27/आरोप-01-84/2022-सा0प्र0-10664

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

6 जून 2023

श्री नौशाद अहमद, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-674/11, तत्कालीन अपर समाहर्ता, नालन्दा के विरुद्ध राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2050 दिनांक-28.12.2022 द्वारा सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं०-4448/2018 मो० जमाल अहमद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-21.12.2022 को पारित आदेश के आलोक में श्री सुनील कुमार वर्मा, तत्कालीन अंचल अधिकारी, बिहारशरीफ, नालन्दा के विरुद्ध विहित प्रपत्र में आरोप-पत्र बिलम्ब से उपलब्ध कराये जाने के प्रतिवेदित आरोप के लिए विहित प्रपत्र में आरोप-पत्र उपलब्ध कराया गया।

2. उक्त आरोप-पत्र के आलोक में विभागीय स्तर पर आरोप-पत्र -क' गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

3. विभागीय पत्रांक-1250 दिनांक-17.01.2023 द्वारा श्री अहमद से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री अहमद के पत्रांक-38 दिनांक-17.01.2023 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया जिसमें उनका कहना है कि :-

(i) उन्हें अधिसूचित कार्यों के अतिरिक्त जिला पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा पदस्थापन के विभिन्न वर्षों में 20 से अधिक कार्यालयों का वरीय प्रभार सौंपा गया था, जिसमें मध्य निषेध विभाग के कार्यों के निष्पादन में न्यायालयों का भी कार्य करना पड़ता था।

(ii) पदस्थापन कार्यकाल में सक्रिय रूप से कार्यों का निष्पादन करते हुए समय-समय पर यथा निर्देशित विधि व्यवस्था, चुनाव संबंधी कार्यों का पूर्ण जिम्मेदारी के साथ निर्वाह किया गया।

(iii) जांच प्रतिवेदन के कंडिका-04 में अंकित विभागीय अनुवर्ती स्मार जो, तत्कालीन अंचलाधिकारी, बिहारशरीफ के विरुद्ध आरोप-पत्र गठन करने से संबंधित था, उसे संबंधित कर्मी श्री राजेश कुमार सिन्हा, आशुलिपिक के द्वारा कभी उपस्थापित नहीं किया गया, इस तथ्य की पुष्टि जांच दल के प्रतिवेदन के कंडिका-05 में भी की गयी है, जिस कारण आरोप-पत्र गठन करने में विलम्ब हुआ।

4. श्री अहमद के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों एवं समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि :-

(i) श्री अहमद द्वारा तत्कालीन अंचलाधिकारी, बिहारशरीफ के विरुद्ध आरोप प्रपत्र गठित करने में विलंब हुआ।

(ii) श्री राजेश कुमार सिन्हा, आशुलिपिक के द्वारा आरोप प्रपत्र गठन करने संबंधी अनुवर्ती स्मार उपस्थापित नहीं करने के कारण आरोप प्रपत्र गठन करने में विलम्ब हुआ है। श्री अहमद द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मियों के कार्यों का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण में चूक परिलक्षित है।

(iii) माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा संबंधित रिट याचिका को निष्पादित किया जा चुका है। वर्णित स्थिति में श्री अहमद का स्पष्टीकरण अस्वीकार योग्य है।

5. सम्यक् समीक्षोपरांत श्री नौशाद अहमद, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-674/11, तत्कालीन अपर समाहर्ता, नालन्दा के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 (यथा संशोधित) के नियम-14 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत "निन्दन" (आरोप वर्ष 2018-19) की शास्ति अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित किया गया है।

6. अतः श्री नौशाद अहमद, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-674/11, तत्कालीन अपर समाहर्ता, नालन्दा के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमवली, 2005 के नियम-14 के संगत प्रावधानों के तहत "निन्दन" (आरोप वर्ष-2018-19) की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जगदीश कुमार, उप-सचिव।

सं० 27 / आरोप-01-90 / 2019-सा०प्र०-10852

8 जून 2023

श्री मनोज कुमार (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 699/11, तत्कालीन अंचल अधिकारी-सह-बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, अतरी, गया के विरुद्ध आयुक्त कार्यालय, मगध प्रमंडल, गया के पत्रांक-430 दिनांक-07.07.2000 द्वारा आरोप प्रपत्र-क' इस विभाग को उपलब्ध कराया गया। प्रतिवेदित आरोप के आलोक में विभागीय पत्रांक-9673 दिनांक-23.09.2006 द्वारा आरोप प्रपत्र-क' की प्रति संलग्न करते हुए श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री कुमार के पत्रांक-159 दिनांक-18.11.2006 द्वारा अपना स्पष्टीकरण इस विभाग को उपलब्ध कराया गया। विभागीय पत्रांक-706 दिनांक-15.01.2007 द्वारा जिला पदाधिकारी, गया से मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-4267 दिनांक-17.04.2010 के साथ संलग्न जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक-308 दिनांक-19.01.2010 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

2. श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, गया के मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक-10435 दिनांक-20.07.2015 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। आयुक्त कार्यालय, मगध प्रमंडल, गया के पत्रांक-1018 दिनांक-13.03.2021 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही का जांच प्रतिवेदन इस विभाग को उपलब्ध कराया गया। विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में श्री कुमार के उपस्थित नहीं होने के कारण संचालन पदाधिकारी द्वारा Ex-Parte सुनवाई कर अपना जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

3. आयुक्त कार्यालय, मगध प्रमंडल, गया से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-5446 दिनांक-02.06.2021 द्वारा श्री कुमार से कारणपृच्छा की मांग की गयी। विभागीय पत्रांक-1447 दिनांक 07.02.2022, पत्रांक-4929 दिनांक-31.03.2022 एवं पत्रांक-22303 दिनांक-13.12.2022 द्वारा स्मारित भी किया गया।

4. कारणपृच्छा का उत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति में विभागीय पत्रांक-8231 दिनांक-06.08.2021 एवं पत्रांक-13643 दिनांक-04.08.2022 द्वारा कारणपृच्छा का उत्तर समर्पित करने के लिये प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करने हेतु सूचना एवं जन संपर्क विभाग से अनुरोध किया गया, किन्तु श्री कुमार द्वारा कारणपृच्छा का उत्तर इस विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया।

5. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा धोती-साड़ी वितरण एवं छात्रवृत्ति वितरण से संबंधित रोकड़ पंजी एवं अभिश्रव संधारण में अनियमितता बरती गयी है जिसमें वित्तीय अनियमितता परिलक्षित होती है। इनके द्वारा राजस्व कर्मचारियों द्वारा लगान वसूली की राशि अंचल नजारत में जमा नहीं की जा रही थी, बिना अवकाश स्वीकृति के अनधिकृत रूप से अनुपस्थिति, विभागीय कार्यवाही में उपस्थित न होना तथा बचाव-बयान समर्पित नहीं करना इनकी स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता का द्योतक है। इनके विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमवली 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-14 के संगत प्रावधानों के तहत श्री कुमार को (1) निन्दन (आरोप वर्ष-1997-98) एवं (2) दो वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित किया गया।

6. श्री कुमार के विरुद्ध विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक-6143 दिनांक-31.03.2023 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श/सहमति की मांग की गयी। उक्त के आलोक में आयोग के पत्रांक-730 दिनांक-23.05.2023 द्वारा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त श्री कुमार के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमवली 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-14 के संगत प्रावधानों के तहत श्री कुमार को (1) निन्दन (आरोप वर्ष-1997-98) एवं (2) दो वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड का निर्णय विनिश्चित किया गया।

8. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमवली 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-14 के संगत प्रावधानों के तहत श्री मनोज कुमार (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 699/11, तत्कालीन अंचल अधिकारी-सह-बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, अतरी, गया को (1) निन्दन (आरोप वर्ष-1997-98) एवं (2) दो वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जगदीश कुमार, उप-सचिव।

सं० 27 / आरोप-01-90 / 2019-सा०प्र०-11525

16 जून 2023

श्री कुमार अनुज, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-1224/11 तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, सदर भागलपुर के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक-42 दिनांक-24.07.2017 द्वारा आरोप पत्र प्रपत्र-“क” (साक्ष्य सहित) इस विभाग को उपलब्ध कराया गया। श्री अनुज के विरुद्ध सैन्डिस कम्पाउण्ड स्टेडियम परिसर में कराये गये कार्यों के लिये कोई प्राक्कलन, निविदा आदि प्रक्रियाओं का पालन नहीं करने, अपने पद का दुरुपयोग कर बगैर समिति की बैठक आयोजन के एवं सक्षम प्राधिकार की पूर्वानुमति के स्टेडियम में सिविल निर्माण संबंधी कार्य करने, जिससे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना होने तथा अवैध निर्माण संबंधी कार्य कराने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

प्रतिवेदित आरोप के आलोक में विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक-739 दिनांक-15.01.2018 द्वारा श्री अनुज से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। बचाव-बयान समर्पित करने हेतु श्री अनुज द्वारा सैन्डिस कम्पाउण्ड से संबंधित अभिलेख/कागजात की मांग की गयी। विभागीय पत्रांक-4332 दिनांक-03.04.2018 द्वारा वांछित कागजात जिला पदाधिकारी, भागलपुर से स्वयं प्राप्त कर स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश श्री अनुज को दिया गया तथा पत्र की प्रति जिला पदाधिकारी, भागलपुर को देते हुए सैन्डिस कम्पाउण्ड से संबंधित अभिलेख/कागजात श्री अनुज को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया एवं इस हेतु स्मारित भी किया गया। किन्तु श्री अनुज का स्पष्टीकरण अप्राप्त रहा।

विचारोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-12043 दिनांक-16.12.2020 द्वारा श्री अनुज के विरुद्ध विभागीय जांच संचालित की गयी, जिसमें आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। आयुक्त कार्यालय, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर के पत्रांक-14 दिनांक-06.01.2023 द्वारा श्री अनुज के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जांच प्रतिवेदन इस विभाग को उपलब्ध कराया गया। जांच प्रतिवेदन में इनके विरुद्ध गठित सभी छः आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

विभागीय पत्रांक-2283 दिनांक-02.02.2023 एवं पत्रांक-8787 दिनांक-10.05.2023 द्वारा आयुक्त कार्यालय, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए श्री अनुज से बचाव बयान की मांग की गयी। श्री कुमार अनुज द्वारा (पत्रांक-68 दिनांक-29.05.2023) बचाव बयान इस विभाग को उपलब्ध कराया गया।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री अनुज के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं जांच पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी ने स्वीकार किया है कि सैन्डिस कम्पाउण्ड परिसर/स्टेडियम में सक्षम प्राधिकार की पूर्वानुमति के बिना, बिना कोई प्राक्कलन एवं निविदा के अंगिका कप के आयोजन हेतु अस्थायी कार्य जनसहयोग के माध्यम से कराया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के सी.डब्ल्यू. जे.सी. सं.-5822/04 में दिनांक-12.04.2005 को पारित न्यायादेश में सैन्डिस कम्पाउण्ड परिसर के अंदर नव निर्माण कार्य पर रोक लगायी गयी थी। आरोपित पदाधिकारी द्वारा पद का दुरुपयोग किया गया है। वरीय पदाधिकारी होने के नाते उनका यह कृत्य स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता का द्योतक है। इनके विरुद्ध प्रमाणित आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) यथासंशोधित नियमवली 2005 के नियम-14 के संगत प्रावधानों के तहत श्री अनुज को (1) निन्दन (आरोप वर्ष-2017-18) एवं (2) दो वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित किया गया।

अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार बिहार सरकारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) यथासंशोधित नियमवली 2005 के नियम-14 के संगत प्रावधानों के तहत श्री कुमार अनुज, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-1224/11 तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, सदर भागलपुर सम्प्रति वरीय उप समाहर्ता, जमुई को (1) निन्दन (आरोप वर्ष-2017-18) एवं (2) दो वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रवीन्द्र नाथ चौधरी, उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 15-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>